

133/ATT/Poly  
28/10/20

C-100297/GST  
28/10/2020

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

215/PP  
28/10/2020

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT  
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3(13)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ 130

Dated: 28/10/20

Notification No 29/2019- State Tax (Rate)

No.F3(13)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of the National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3 (13)/Fin(Rev-I)/2017-k8/DS-VI/379, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

- In the said notification, in the Table, for serial number 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

| (1)  | (2)   | (3)   | (4)   |
|------|---|---|---|
| "15. | Services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient, provided to a body corporate. | Any person, other than a body corporate who supplies the service to a body corporate and does not issue an invoice charging state tax at the rate of 6 percent, to the service recipient. | Any body corporate located in the taxable territory." |

This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31<sup>st</sup> day of December, 2019.

A/C/P  
Yours/2719K

By order and in the name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

(Manoj Kumar)

Dy. Secretary IV (Finance)

No.F3(13)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ 130

Dated: 28/10/20

Copy forwarded for information to:-


- I. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

Mr. Poonam Jinchage, EOP Branch  
GSTI

28/10/2020

U/Mao/  
Abdul  
28/10/2020

S.A-II



2. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
10. Website.
11. Guard File.

*M.K  
23/12/20*  
(Manoj Kumar)  
**Dy. Secretary IV (Finance)**

Note: -The principal notification No. 13/2017 - State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/379, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by notification No. 22/2019 - State Tax (Rate), dated the 12<sup>th</sup> December, 2019 vide No. F.3 (90)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/617, dated the 12<sup>th</sup> December, 2019.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के नाम बारे में प्रकाशनार्थ)  
 राष्ट्रीय चालानी द्वारा दिल्ली सरकार  
 वित्त (राजस्व-1) विभाग  
 दिल्ली सचिवालय, आई. पी. हाउस, नई दिल्ली-110 002

संख्या 3(13)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/टीएस-IV//20

दिनांक 17/10/20

अधिसूचना नं. 29/2019-राज्य कर (दर)

संख्या 3(13)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/टीएस-IV/ — दिल्ली नाल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 (2017 का 03) की घात 9 की उपलब्ध (3) के तहत प्रदत्त अविभायों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय चालानी द्वारा, दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के अन्वार पर, एलडब्ल्यू. दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30/08/2018 जिसे संख्या 3(15)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/टीएस-VI/28 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

उपर अधिसूचना में संशोधनी में, कम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रतिविद्यों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा—

| (1) | (2)  | (3)   | (4) |
|-----|--|---|-----|
| 15  | किसी बड़ी कारपोरेट को ऐसे किसी बड़ी कारपोरेट से ऐसा कोई बड़ी विद्युतीय भूमि का विवाह को किसाए पर देकर दी जाने, वाली सेवा निलंबन कियी जाने के लिए दैवार किया जाने के लिए दैवार किया गया हो और जहाँ इन्हन का छुर्छ भी सेवा के प्राप्तकर्ता के द्वारा जाने वाले प्रतिक्रिया में शामिल हो। | मिन्न कोई व्यक्ति जो किसी बड़ी कारपोरेट को कमालेय राज्यक्षेत्र में सेवा की आपूर्ति करता हो और सेवा के प्राप्तकर्ता ने 6 प्रतिशत भी दर से राज्य कर रखने करने वाली दृग्दायक जासू न करता हो। |     |

2. यह अधिसूचना 31 दिसंबर, 2019 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय चालानी द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से यथा उनके नाम पर

लगाया गया है।  
 (मनोज कुमार)  
 उप सचिव-IV (वित्त)

संफा. ३(३) / वित्त (राजस्व-१) / २०२०-२१ / डीएस-IV / १३० दिनांक १९/१९/२०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शुद्धार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अदायगित

१. भागीरथ उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रमाण सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
२. प्रमाण सचिव, भास्तव्य प्रशासन प्रभाग, राष्ट्रीय राजधानी हेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अंतरिक्ष प्रति सहित भाग की तरीके में दिल्ली राजपत्र भाग - आर.असाइट्स में प्रमाणान्वय।
३. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी हेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- ✓ ४. आमुज़, चाप्य का०, दिल्ली, आपार भवन, आई.पी. एस्टट, नई दिल्ली।
५. भागीरथ मुख्यमंत्री के भागीरित सचिव, राष्ट्रीय राजधानी हेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
६. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी हेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
७. अंतरिक्ष सचिव (पिल्ली), राष्ट्रीय राजधानी हेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
८. नेता प्रतिष्ठा के गिरी साहेब, २९, दिल्ली विभाग रस्ता, युवाना सचिवालय, दिल्ली।
९. सचिव सचिव के विवेक कार्यालयालय, राष्ट्रीय राजधानी हेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
१०. टेक शैट।
११. गढ़ बाइब्ल।

उप सचिव- IV (वित्त)

१९/१९/२०

(नमोन कुमार)

नोट: प्रमाण अधिकारी का संख्या ३९/२०१७-राज्य कर (दर), दिनांक ३० जून, २०१७ को जिसे संफा. ३(३) / वित्त (राजस्व-१) / २०१७-१८ / डीएस- VI / ३७९, वित्त का ३० जून, २०१७ के तहत दिल्ली के राजपत्र असाइट्स, भाग-I में प्रकाशित किया गया था और इसने अंतिम आम अधिकारी का संख्या २२/२०१८-राज्य कर (दर), दिनांक १२ दिसम्बर, २०१९, संफा. ३(३) / वित्त (राजस्व-१) / २०१९-२० / डीएस- VI / ६१७ दिनांक १२ दिसम्बर, २०१९, के द्वारा संशोधन किया गया है।